



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 3 राँची, बुधवार,

2 जनवरी, 2019 (ई०)

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

25 दिसम्बर, 2018

संख्या- 1/पी०-102/2014 खण्ड-1 का.-9361-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री बी०के० त्रिपाठी, भा.प्र.से. (झा:1983) को अगले आदेश तक महानिदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या- 1/पी०-102/2014 खण्ड-1 का.-9362-- बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित श्री बिरसाय उराँव, भा.प्र.से. (झा:2005) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या- 1/पी०-102/2014 खण्ड-1 का.-9363-- निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड के पद पर अधिसूचित श्री रमेश कुमार दूबे, भा.प्र.से. (झा:2005) अगले आदेश तक विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पद पर ही यथावत बने रहेंगे।

संख्या- 1/पी०-102/2014 खण्ड-1 का.-9364-- अपर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती सुचित्रा सिन्हा, भा.प्र.से. (झा:2006) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या- 1/पी०-102/2014 खण्ड-1 का.-9365-- संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री मंजूनाथ भजन्त्री, भा.प्र.से. (झा:2011) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या- 1/पी०-102/2014 खण्ड-1 का.-9366-- निदेशक, कृषि, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री घोलप रमेश गोरख, भा.प्र.से. (झा:2012) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक, उद्यान, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।
